



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 1] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 1, 1982/ पौष 11, 1903
No 1] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 1, 1982/ PAUSA 11, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paginal is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

नौबहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1982

का.आ. 1(अ) —केंद्रीय सरकार, डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन),
अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 5-क की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त
शक्तियों का प्रयोग करते हुए और डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) नियम,
1962 के नियम 4 के उपनियम (1) के परन्तुक के अनुसरण में, अध्यक्ष, कलकत्ता
पुस्तक न्यास, कलकत्ता को कलकत्ता डाक श्रमिक बोर्ड के सदस्य के रूप में
निगूकत करती है और उसे उक्त बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नाम निर्दिष्ट करती

है तथा उस प्रयोजन के लिए भारत सरकार के नौवहन और परिक्षहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना स. का आ. 148(अ) ता 27 जनवरी, 1978 से निम्नलिखित परिवर्तन करती है, अर्थात् —

उक्त अधिसूचना में —

- (1) केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य शीर्षक के नीचे, मद 1 के सामने कार्यकारी अध्यक्ष, कलकत्ता पत्तन न्यास, कलकत्ता प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् अध्यक्ष, कलकत्ता पत्तन न्यास, कलकत्ता ।
- (2) पैरा 2 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्—
केन्द्रीय सरकार, श्री टी सी. दत्त, अध्यक्ष, कलकत्ता पत्तन न्यास, कलकत्ता को उक्त बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नाम निर्दिष्ट करती है ।

[फा स. एल डी सी/4/79-एल-3]

वी शंकरलिंगम, उप सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi the 1st January, 1982

S.O. 1(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 5A of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948) and in pursuance of proviso to sub rule (1) of rule 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Rules, 1962 the Central Government hereby appoints the Chairman Calcutta Port Trust Calcutta as a member of the Calcutta Dock Labour Board and nominates him as the Chairman of the said Board and for that purpose amends the notification of Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No S.O. 118(E), dated 27th January, 1978 as follows namely —

In the said notification —

- (i) Under the heading 'Members representing the Central Government' against item 1 for the entry 'Acting Chairman Calcutta Port Trust, Calcutta', the following entry 'The Chairman Calcutta Port Trust, Calcutta' shall be substituted
- (ii) for paragraph 2 the following paragraph shall be substituted namely —
'The Central Government hereby nominates Shri T. C. Dutt, Chairman, Calcutta Port Trust Calcutta as the Chairman of the said Board'

'F No LDC 479-L-III]

V SANKARALINGAM, Dy Secy.